



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 27, बुधवार, शके 1941-सितम्बर 18, 2019
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941-September 18, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 05, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8888 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Council Hindaun city has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Hindaun city. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

प्रपत्र - क

नगर परिषद हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज०)

वार्ड सं०	विवरण
01.	<p>उत्तर - धावन धौलेटा रोड से सड़क पर चलते हुए मूँडिया के पुरा को शामिल करते हुए बड़ के पुरा को छोड़कर संतोष नगर को छोड़ते हुए पावटियांके पुरा को शामिल करते हुए हाई टेंशन लाइन के नीचे गणेशी जाटव की पाटौर तक।</p> <p>पश्चिम - गणेशी जाटव की पाटौर से खेमचंद जाटव निसूरा वाले के मकान के सामने होकर जगदीश गोस्वामी के मकान के बगल से निकलते हुए 60 फीट रोड़ गायत्री ITI के सामने होकर गोवर्धन शर्मा बीजलवाडा वाले के मकान से वर्धमान नगर रोड़ पर चलते हुए केशर वाटिका तक।</p> <p>दक्षिण - केशर वाटिका के उत्तर तरफ वाले रास्ते में पी.एल. महावर के मकान के सामने होकर राजेन्द्र जैन साहिडा वाले के मकान के सामने से पूर्व की ओर हरभान जाटव के मकान के सामने होते हुए मीठा लाल के फड़ महवा रोड़ तक।</p> <p>पूर्व - मीठा लाल के फड़ महवा रोड़ से रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने होकर धामन धौलेटा तिराहे तक।</p>
02.	<p>उत्तर - गणेशी जाटव की पाटौर हाईटेंशन लाईन के नीचे से मंडावरा के कच्चे रास्ते पर चलते हुए वाई पास तक।</p> <p>पश्चिम - वाई पास मंडावरा के कच्चे रास्ते से चलते हुए गायत्री ITI के पीछे से होकर 60 फीट</p>

	<p>रोड़ से उमराव लाल शर्मा के मकान के सामने होकर कच्चे रास्ते में चलते हुए हनुमान जी के मन्दिर तक।</p> <p>दक्षिण - हनुमान जी के मन्दिर से पूर्व की ओर चलते हुए दौलत राम शर्मा के मकान के सामने होकर शशि वाला के मकान के सामने होकर जैन मन्दिर के पूर्वी दक्षिणी कोने तक।</p> <p>पूर्व - जैन मन्दिर के दक्षिण पूर्वी कोने से उत्तर की ओर चलते हुए सुमेर लाल शर्मा सिकरौदा वाले के मकान से 60 फीट रोड़ पर चलते हुए गायत्री ITI के सामने होकर खेमचंद जाटव निसूरा वाले के मकान के सामने होते हुए गणेशी जाटव की पाटौर हाईटेशन लाईन के नीचे तक।</p>
03.	<p>उत्तर - मंडावरा रोड़ वाईपास क्यारदा के कच्चे रास्ते से गायत्री ITI के पीछे होकर 60 फीट रोड़ तक।</p> <p>पश्चिम - वाईपास चैराहे से कृषि उपज मण्डी की ओर वाईपास पर क्यारदा के कच्चे रास्ते तक।</p> <p>दक्षिण - पुखराज मीणा मीना बडौदा वाले की दुकान मंडावरा रोड़ पर चलते हुए वाईपास चैराहे तक।</p> <p>पूर्व - साठ फीट रोड़ से उमराव लाल शर्मा के मकान के सामने होकर कच्चे रास्ते में चलते हुए शिवदयाल हलकारा की दुकान से कृष्णकान्त त्रिपाठी घोंसला वाले के मकान के सामने होकर मस्जिद के सामने होकर पी.आर. मीना रेल्वे वाले के मकान के सामने होकर पुखराज मीना मीना बडौदा वाले की दुकान मण्डावरा रोड़ तक।</p>
04.	<p>उत्तर - आदिगौड़ धर्मशाला से हरिजन बस्ती में होकर गोपाल बादलपुर वाले के मकान के कोने तक।</p> <p>पश्चिम - गोपाल बादलपुर वाले के मकान से कृष्णकुमार त्रिपाठी घोंसला वाले के सामने से महेश धोवी के सामने से चलते हुए मस्जिद के सामने होकर पी.आर. मीना रेल्वे वाले के मकान के सामने होकर मण्डावरा रोड़ केवल सैन कंजोली वाले की दुकान तक।</p> <p>दक्षिण - केवल सैन कंजोली वाले की दुकान मंडावरा रोड़ से मंडावरा फाटक तक।</p> <p>पूर्व - मंडावरा फाटक से रेल्वे लाईन के सहारे स्टेशन की ओर चलते हुए, आदिगौड़ धर्मशाला के कोने तक।</p>
05.	<p>उत्तर- जैन मन्दिर से पश्चिम की ओर चलते हुए बाल विद्या मन्दिर के सामने होकर गोपाल बादलपुर वाले के मकान तक।</p> <p>पश्चिम- गोपाल बादलपुर वाले के मकान से हरिजन बस्ती में होकर नैमी कोटरी वाले की बगीची से आदिगौड़ धर्मशाला के कोने रेल्वे लाईन तक।</p> <p>दक्षिण- आदिगौड़ धर्मशाला रेल्वे लाईन से स्टेशन की ओर चलते हुए वर्धमान नगर के सीधे रास्ते तक।</p> <p>पूर्व - रेल्वे लाईन से वाणिज्य कर विभाग कार्यालय मथुरालाल के मकान के सामने होकर सोमली वालों के मकान के सामने होकर जैन मन्दिर तक।</p>
06.	<p>उत्तर - मीठा लाल के फड़ से पश्चिम की ओर हरभान जाटव के मकान के सामने होकर राजेन्द्र जैन साहिडा वाले के मकान के सामने होकर पी.एल. महावर इंजिनियर के मकान के सामने होकर केशर वाटिका के कोने वर्धमान नगर रोड़ तक।</p> <p>पश्चिम - केशर वाटिका के कोने से रेल्वे लाईन की ओर चलते हुए जैन मन्दिर के सामने होकर</p>

	<p>रेल्वे लाईन तक।</p> <p>दक्षिण - वर्धमान नगर रोड़ से रेल्वे लाईन स्टेशन की ओर चलते हुए रेल्वे लाईन के सहारे ओवर ब्रिज महवा रोड़ तक।</p> <p>पूर्व - रेल्वे लाईन महवा रोड़ क्रोसिंग से महवा की ओर चलते हुए मीठा लाल के फड़ तक।</p>
07.	<p>उत्तर - रेल्वे क्रोसिंग महवा रोड़ से महावीर जी की ओर रेल लाईन पर चलते हुए सुरेश हलवाई के मकान तक।</p> <p>पश्चिम - सुरेश हलवाई के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए यादराम ढिंडोरा वाले के मकान तक।</p> <p>दक्षिण - सुरेश हलवाई के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए यादराम ढिंडोरा वाले के मकान के पूर्व की तरफ वाले रास्ते में चलते हुए अशोक रीठौली वाले के मकान से राधेश्याम चैनपुर वाले के मकान के सामने से शंकर पंडित के मकान के सामने होकर उत्तर की ओर देवेन्द्र वशिष्ठ के मकान के पूर्व की तरफ वाले संकरे रास्ते में होकर नारायण के मकान तक।</p> <p>पूर्व - नारायण के मकान से उत्तर की ओर मुड़ते हुए तारा गजानंद के मकान के सामने होकर गिलहारा राम के फड़ में होकर स्टेशन रोड़ से रेल्वे क्रोसिंग महवा रोड़ तक।</p>
08.	<p>उत्तर - शंकर पंडित के मकान से देवेन्द्र वशिष्ठ के पूर्व तरफ वाली गली में होकर नारायण के मकान के सामने से उत्तर की ओर मुड़कर गिलहारा राम के फड़ पर होते हुए स्टेशन रोड़ तक।</p> <p>पश्चिम - गंगासहाय करीरी वाले के मकान के उत्तर तरफ वाले रास्ते में गिर्राज घी वाले के मकान से मुड़ते हुए श्याम लाल वकील के सामने होकर किशन स्वरूप की प्लाट वाले रास्ते अशोक रीठौली वाले के मकान के सामने से शंकर पंडित के मकान तक।</p> <p>दक्षिण - पावटा हाउस से मंडी चौक में होकर कांता मैमोरियल के सामने से चलते हुए गंगासहाय करीरी वाले के मकान तक।</p> <p>पूर्व - स्टेशन रोड़ गिलहारा राम के फड़ से पावटा हाउस तक।</p>
09.	<p>उत्तर - मंडावरा फाटक रेल्वे क्रोसिंग से बयाना की ओर रेल लाईन के सहारे चलते हुए रामविलास के मकान तक।</p> <p>पश्चिम - प्रवीन अरोडा की दुकान मंडावारा रोड़ से मंडावरा फाटक रेल्वे क्रोसिंग तक।</p> <p>दक्षिण - मंगल कोली के मकान से बाबूलाल खटीक के मकान के सामने से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए खादी भंडार में होकर प्रवीन अरोडा की दुकान मंडावारा रोड़ तक।</p> <p>पूर्व - रेल्वे लाईन रामविलास के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए मन्नुलाल कंपांडर झारेडा वाले के सामने होकर यादराम ढिंडोरा वाले के मकान से उत्तर की ओर मुड़ते हुए अशोक रीठौली वाले के मकान से किशन स्वरूप की प्लाट के रास्ते सियाराम शर्मा के मकान के सामने होकर मंगल राम कोली के मकान तक।</p>
10.	<p>उत्तर - पावटा हाउस के उत्तर की तरफ वाले रास्ते से पश्चिम की ओर चलते हुए मंडी चौक में होते हुए कांता मैमोरियल स्कूल के सामने होकर गंगासहाय करीरी वाले के उत्तर की तरफ वाले रास्ते में चलते हुए, मंगल कोली के मकान से रास्ते में चलते हुए बाबू लाल खटीक के मकान तक।</p> <p>पश्चिम - बाबू लाल खटीक के मकान से खादी भण्डार में होकर प्रवीन अरोडा के मकान मंडावरा</p>

	<p>रोड तक।</p> <p>दक्षिण - प्रवीन अरोडा की दुकान मंडावरा रोड से पूर्व की ओर चलते हुए सुरेश पंसारी की दुकान स्टेशन रोड तक।</p> <p>पूर्व - सुरेश पंसारी की दुकान स्टेशन रोड से महवा रोड पर चलते हुए पावटा हाउस तक।</p>
11.	<p>उत्तर - विनोद करीरी वाले की दुकान से मंडावरा की ओर चलते हुए बाबा पैलेस के सामने होकर ओमप्रकाश नाहिडा वाले की दुकान तक।</p> <p>पश्चिम - ओमप्रकाश नाहिडा वाले की दुकान मंडावरा रोड से गिर्राज गुप्ता के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए हाकिम सिंह रैंजर के मकान तक।</p> <p>दक्षिण - हाकिम सिंह रैंजर के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए सलीम हाडौली वाले के मकान के सामने से चंद्रकला की चक्की के सामने होकर लौकेश की दुकान स्टेशन रोड तक।</p> <p>पूर्व - लौकेश की दुकान स्टेशन रोड से उत्तर की ओर महवा रोड पर चलते हुए विनोद करीरी वाले के मकान तक।</p>
12.	<p>उत्तर - ओमप्रकाश नाहिडा वाले की दुकान मंडावरा रोड से पश्चिम की तरफ चलते हुए रेल्वे लाईन मंडावरा फाटक तक।</p> <p>पश्चिम - मंडावरा फाटक रेल्वे लाईन से महावीर जी की ओर चलते हुए सती का तिवारा वाला रास्ता रेल्वे लाईन तक।</p> <p>दक्षिण - सती के तिवारा वाला रास्ता रेल्वे लाईन से पूर्व की ओर कच्चे रास्ते पर चलते हुए चाँद की प्लाट तक।</p> <p>पूर्व- चाँद की प्लाट से उत्तर की तरफ सलीम मूँडरी वाले के मकान के सामने से चलते हुए हाकिम सिंह रैंजर के मकान के सामने होकर पश्चिम की ओर चलते हुए गिर्राज गुप्ता के मकान के सामने होकर ओमप्रकाश नाहिडा वाले की दुकान मंडावरा रोड तक।</p>
13.	<p>उत्तर - हाकिम सिंह रैंजर के मकान के दक्षिण की तरफ वाले रास्ते से चलते हुए उत्तर की ओर मुडकर सलीम हाडौली वाले के मकान के सामने से पूर्व की ओर चलकर चंद्रकला की चक्की के सामने होकर लौकेश की दुकान स्टेशन रोड तक।</p> <p>पश्चिम- चाँद के प्लाट सलीम मूँडरी वाले के सामने होकर हाकिम सिंह रैंजर के मकान तक।</p> <p>दक्षिण - चिम्मन खाती की दुकान बयाना मोड चौराहे से पश्चिम की ओर चलते हुए निनुआ चौधरी के सामने होकर सती के तिवारे के रास्ते चाँद की प्लाट तक।</p> <p>पूर्व - लौकेश की दुकान स्टेशन रोड से चौपड़ की ओर चलते हुए बयाना मोड चौराहे चिम्मन खाती की दुकान तक।</p>
14.	<p>उत्तर - बयाना मोड चौराहे घनश्याम बिडला के कोने से पश्चिम की ओर सती के तिवारे होते हुए रेल्वे लाईन तक।</p> <p>पश्चिम - रेल्वे लाईन सती के तिवारे से महावीर जी की ओर रेल्वे लाईन के सहारे चलते हुए ओवर ब्रिज महेन्द्र जाट के कुआँ तक।</p> <p>दक्षिण - रेल्वे लाईन ओवर ब्रिज महेन्द्र जाट के कुआँ से कच्चे रास्ते में पूर्व की ओर चलते हुए रामबाबू शर्मा सीलौती वाले के मकान से उत्तर की ओर रोड पर मुडकर फूलसिंह जाट के मकान से लखन जाट के मकान के सामने से उत्तर की ओर मुडते हुए गोविंद सकरघटा के मकान से पूर्व की ओर रास्ते में चलते हुए महेश गौड़ के मकान के सामने से देहली</p>

	<p>साईकल स्टोर स्टेशन रोड तक।</p> <p>पूर्व - घनश्याम बिडला का खेत बयाना मोड चौराहे से देहली साईकल स्टोर तक।</p>
15.	<p>उत्तर - नेहरू पार्क से देहली साईकल स्टोर से पश्चिम की ओर चलते हुए महेश गौड के मकान से सामने होकर गोविंद सकरघटा के मकान से दक्षिण की ओर मुडकर लक्ष्मण जाट के मकान के सामने से पश्चिम की ओर चलते हुए फूलसिंह जाट के मकान से रोड पर चढकर रामबाबू सीलौती वाले के मकान से महेन्द्र जाट के कुँआ तक।</p> <p>पश्चिम - महेन्द्र जाट के कुँआ से महावीर जी की ओर चलते हुए झारेडा फाटक तक।</p> <p>दक्षिण - रेल्वे क्रसिंग झारेडा फाटक से पूर्व की ओर चलते हुए महेश जोगी की दुकान तक।</p> <p>पूर्व - महेश जोगी की दुकान झारेडा रोड से उत्तर की ओर चलते हुए राजू धाकड़ पुलिस वाले के मकान से पूर्व की ओर मुडते हुए हरसहाय गुर्जर तिवारा वाले के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए राम दत्ता के मकान से शिवदयाल मुंशी के सामने होकर नेहरू पार्क तक।</p>
16.	<p>उत्तर - नेहरू पार्क से पश्चिम की ओर शिवदयाल मुंशी के सामने होकर राम दत्ता के मकान तक।</p> <p>पश्चिम - रामदत्ता के मकान से गिरीश प्रसाद के मकान से महेश हरिरामपुरा वाले के मकान के सामने होकर हरसहाय गुर्जर तिवारे वाले के मकान से पश्चिम की ओर मुडकर राजू धाकड़ पुलिस वाले के मकान से दक्षिण की ओर चलकर झारेडा रोड महेश जोगी के मकान/दुकान तक।</p> <p>दक्षिण - महेश जोगी की मकान/दुकान से पूर्व की ओर चलते हुए करौली रोड हरिजन बस्ती भगवान सहाय हरिजन के मकान तक।</p> <p>पूर्व - करौली रोड हरिजन बस्ती भगवान सहाय हरिजन के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए चौपड सर्किल नेहरू पार्क तक।</p>
17.	<p>उत्तर - बृजेन्द्र आर्य के मकान झारेडा रोड से पश्चिम की ओर झारेडा रोड पर चलते हुए गंगासहाय तालचिडी वाले की दुकान तक।</p> <p>पश्चिम - गंगासहाय तालचिडी वाले की दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुए रामबाबू जांगिड की दुकान व मकान से अंजू शर्मा आगरा वाली के मकान से पश्चिम वाले रास्ते में होकर मुरारी लाल ASI के मकान के सामने होकर छगनलाल गर्ग के मकान से पूर्व की ओर मुडकर त्रिलोक जोशी के मकान से दक्षिण की ओर मुडते हुए दिनेश गुप्ता के मकान तक।</p> <p>दक्षिण - दिनेश गुप्ता के मकान बरगमा रोड से पूर्व की ओर चलते हुए हरभेजी नागिन की दुकान करौली रोड तक।</p> <p>पूर्व - हरभेजी नागिन की दुकान करौली रोड से बृजेन्द्र आर्य के मकान झारेडा रोड तक।</p>
18.	<p>उत्तर - झारेडा गुमटी से पूर्व की ओर चलते हुए भूपेन्द्र कैम्पस के सामने से होकर गंगा सहाय तालचिडी वाले की दुकान तक।</p> <p>पश्चिम - नगर पालिका सीमा बिंदु से झारेडा रेल्वे क्रसिंग तक।</p> <p>दक्षिण - रूपसिंह रैंजर के मकान बरगमा रोड से बरगमा की ओर चलते हुए नगर पालिका सीमा</p>

	<p>बिन्दू तक।</p> <p>पूर्व - गंगा सहाय ताललिडी वाले की दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुए रामबाबू जांगिड की दुकान व मकान से अन्जू शर्मा आगरे वाली के मकान के पश्चिम वाले रास्ते से होकर मुरारीलाल ASI के मकान के सामने होकर छगनलाल गर्ग के मकान से पूर्व की ओर मुड़कर रामस्वरूप शर्मा के मकान के सामने होकर त्रिलोक जोशी के मकान से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए रूपसिंह रैंजर के मकान तक।</p>
19.	<p>उत्तर - करौली रोड कब्रिस्तान से बरगमा रोड पर चलते हुए तुलसीदास आश्रम के सामने होकर नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>पश्चिम- नगर परिषद सीमा से सीमा रेखा पर चलते हुए सिकरौदा के कच्चे रास्ते पर चलते हुए किरोडी धाकड की धर्मशाला तक।</p> <p>दक्षिण- किरोडी धाकड की धर्मशाला नगर परिषद सीमा से सिकरौदा के कच्चे रास्ते पर पूर्व की ओर चलते हुए रफीक वकील के मकान से खलील बाबा के मकान के सामने होकर मस्जिद के सामने होते हुए थाने के पीछे वाले रास्ते से चलते हुए करौली रोड तक।</p> <p>पूर्व- थाने के बगल वाले रास्ते करौली रोड से उत्तर की ओर चलते हुए गौशाला के सामने होकर रोडवेज डिपो के सामने होकर बरगमा रोड कब्रिस्तान तक।</p>
20.	<p>उत्तर- किरोडी धाकड की धर्मशाला नगर परिषद सीमा से सिकरौदा के कच्चे रास्ते पर पूर्व की ओर चलते हुए रफीक वकील के मकान से खलील बाबा के मकान के सामने होकर मस्जिद के सामने होते हुए कोतवाली के पीछे वाले रास्ते से चलते हुए करौली रोड तक।</p> <p>दक्षिण- करौली रोड श्मशान घाट के रास्ते मेला ग्राउंड के उत्तर की तरफ वाली सीमा पर होते हुए किरोडी धाकड की बगीची नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>पूर्व - थाने के बगल वाले रास्ते करौली रोड से कोतवाली के सामने होते हुए श्मशान घाट के रास्ते तक।</p>
21.	<p>उत्तर - करौली रोड श्मशानघाट के रास्ते पश्चिम की ओर चलते हुए मेला ग्राउंड के उत्तर की तरफ वाली सीमा पर होकर किरोडी धाकड की बगीची नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>पश्चिम - किरोडी धाकड की बगीची नगर परिषद सीमा बिन्दू से दक्षिण की ओर चलते हुए करौली 35 वें मील करौली रोड नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>पूर्व - 35वें मील करौली रोड नगर परिषद सीमा से शहर की ओर चलते हुए श्मशान घाट के रास्ते करौली रोड तक।</p>
22.	<p>उत्तर - करौली रोड से पूर्व की ओर जलसेन में होकर खेड़लियान के पुरा को जाने वाले सड़क पर पुलिया तक।</p> <p>पश्चिम- करौली रोड पर नगर परिषद सीमा 35वें मील से शहर की ओर चलते हुए जलसेन में होकर जाने वाली सड़क तक।</p> <p>दक्षिण- तेली की पसेरी सड़क नगर परिषद सीमा पर चलते हुए करौली रोड पर 35वें मील सीमा बिन्दू तक।</p> <p>पूर्व - जलसेन से होकर खेड़लियान का पुरा वाली सड़क पर स्थित पुलिया से दक्षिण की ओर चलते हुए बड़े गाँव का पुरा बजनिया का पुरा को शामिल करते हुए तेली की पसेरी वाली सड़क नगर परिषद सीमा तक।</p>

23.	<p>उत्तर - खूँटा-पट्टा की धर्मशाला करौली रोड से पार्क रोड पर चलते हुए गीता टाकीज से सूर्य नारायण मन्दिर के सामने होकर चौमुखी महादेव मन्दिर के सामने से होकर आर्य समाज के सामने से होकर हम्माल पाडा से घाटी बाजार वाली मस्जिद के सामने से राधा-रमन मंदिर के सामने होते हुए नीलगर वाली मस्जिद तक।</p> <p>पश्चिम - करौली रोड जलसेन वाली सडक के बिन्दू से नयी कोतवाली के सामने होते हुए गौशाला खूँटा-पट्टा की धर्मशाला करौली रोड तक।</p> <p>दक्षिण - खेडलियान के पुरा से जलसेन में होकर जाने वाली सडक से होते हुए करौली रोड तक।</p> <p>पूर्व - नीलगर वाली मस्जिद से तालाब में होकर देवु गुर्जर के खेत से नले-नले चलकर खोखलियान का पुरा, सालिमपुरियान का पुरा व इस सीमा में आने वाले सभी पुराओं की आबादी को शामिल कर नगर परिषद सीमा तक।</p>
24.	<p>उत्तर - करौली रोड हरिसिंह गुर्जर की दुकान से पूर्व की ओर चलते हुए नाले की पुलिया को पार करते हुए लतीफ खाँ के मकान के सामने होते हुए मस्जिद के सामने से चलते हुए झालानियों के चौक में होकर रमन बौहरा की दुकान के सामने होकर उत्तर की ओर मलुआ की दुकान के सामने होकर पूर्व की ओर नरेन्द्र की दुकान तक।</p> <p>पश्चिम - करौली रोड खूँटा-पट्टा की धर्मशाला से चौपड की ओर चलते हुए हरिसिंह गुर्जर की दुकान तक।</p> <p>दक्षिण- चौमुखी महादेव मन्दिर से गीता टाकीज के सामने होते हुए पार्क रोड पर पश्चिम की ओर करौली रोड खूँटा-पट्टा की धर्मशाला तक।</p> <p>पूर्व - नरेन्द्र की दुकान से दक्षिण की ओर चौमुखी महादेव मन्दिर के सामने तक।</p>
25.	<p>उत्तर - डैम्परोड पुलिया से डा0 पूरणमल के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए कटरा बाजार में होते हुए विदा गिलहरी की दुकान के सामने होकर अग्रवाल धर्मशाला के सामने से मूलचन्द मावे वाले की दुकान तक।</p> <p>पश्चिम- डैम्परोड पुलिया डा0 पूरणमल के मकान से दक्षिण की ओर नाले-नाले चलते हुए केशव पुरा की पुलिया तक।</p> <p>दक्षिण - केशवपुरा नाले की पुलिया से पूर्व की ओर लतीफ खाँ के मकान के सामने होते हुए मस्जिद के सामने होकर झालानियों के चौक में से रामजीलाल सुनार के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए मलुआ की दुकान के सामने होकर नरेन्द्र जैन की दुकान से दक्षिण की ओर चौमुखी महादेव मन्दिर के सामने से आर्य समाज मन्दिर से विवेकानन्द बाजार में चलते हुए जगदीश मोदी की दुकान तक।</p> <p>पूर्व- जगदीश मोदी की दुकान के सामने से रंगरेजों की गली में होकर मस्जिद के पीछे वाले रास्ते में अर्जुन देव की चक्की के आगे होकर मूल चन्द मावे की दुकान तक।</p>
26.	<p>उत्तर- कंचन धाकड की दुकान डैम्परोड से पश्चिम की ओर रोड-रोड चलते हुए पुराने अस्पताल के सामने होकर पश्चिम की ओर चलते हुए नगर परिषद के सामने होकर पृथ्वी गुर्जर की दुकान चौपड तक।</p> <p>पश्चिम- चौपड पृथ्वी गुर्जर की दुकान से दक्षिण की ओर करौली रोड पर चलते हुए भौरया गुर्जर की दुकान के दक्षिण-पश्चिम कोने तक।</p> <p>दक्षिण- भौरया गुर्जर की दुकान के दक्षिण-पश्चिम कोने से पूर्व की ओर गंदे नाले की पुलिया से</p>

	<p>नाले-नाले चलते हुए डैम्परोड पुलिया चिम्मन की दुकान तक।</p> <p>पूर्व- डैम्परोड पुलिया चिम्मन की दुकान से उत्तर की ओर शान्ति पैलेश के सामने होते हुए कंचन धाकड की दुकान तक।</p>
27.	<p>उत्तर - बयाना मोड से पूर्व की ओर चलते हुए एसीजेएम कोर्ट से धाकड धर्मशाला के सामने होकर कोलियों की बगीची से पूर्व की ओर मुडते हुए नत्थी कोली-परभाती कोली के सामने होकर कल्याण दत्तात्रेय की मील तक।</p> <p>पश्चिम- चौपड सर्किल से स्टेशन रोड पर चलते हुए बयाना मोड तक।</p> <p>दक्षिण- चाँद मेडीकल स्टोर डैम्परोड से रा.उ.मा.विद्यालय के सामने होकर चौपड सर्किल तक।</p> <p>पूर्व- कल्याण दत्तात्रेय की मील से दिलसुख की टाल के सामने होकर चाँद मेडीकल स्टोर डैम्परोड तक।</p>
28.	<p>उत्तर- एसीजेएम कोर्ट बयाना रोड से पूर्व की ओर चलते हुए सत्संग भवन के सामने होकर जाट की सराय स्टेडियम के उत्तर-पूर्वी कोने तक।</p> <p>पश्चिम- कोलियों की बगीची से धाकड धर्मशाला के सामने होकर एसीजेएम कोर्ट के कोने बयाना रोड तक।</p> <p>दक्षिण- कल्याण दत्तात्रेय की मील से पश्चिम की ओर चलते हुए परभाती के मकान के सामने होकर कोलियों की बगीची तक।</p> <p>पूर्व - जाट की सराय स्टेडियम के उत्तर-पूर्वी कोने से मानसिंह के मकान से मुडते हुए शीतला कालोनी होकर लौकोश विजय के मकान के सामने होकर शीतला चौराहे होते हुए कल्याण दत्तात्रेय की मील तक।</p>
29.	<p>उत्तर - मोहन नगर प्लाट नं0 E 55 रामेश्वर के मकान के उत्तर-पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर छोटे पार्क के उत्तर तरफ वाले रास्ते में खूबचंद सारस्वत के मकान के सामने होकर प्रभुलाल फतेहपुर वाले के मकान के उत्तर तरफ वाले रास्ते से नाथूलाल कम्पाउंडर के उत्तर तरफ वाले रास्ते से स्टेशन रोड प्लाट नं0 F 13 बट्टी झिरना वालों के मकान तक।</p> <p>पश्चिम- बट्टी प्रसाद झिरना वालो के मकान F 13 स्टेशन रोड से जगदीश के मकान बयाना मोड तक।</p> <p>दक्षिण - बयाना मोड स्टेशन रोड जगदीश के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए सत्संग भवन चौराहे तक।</p> <p>पूर्व- सत्संग भवन चौराहे से उत्तर की ओर चलते हुए डा0 हरिशंकर के मकान के सामने होते हुए E 55 रामेश्वर के मकान के उत्तर पूर्वी कोने तक।</p>
30.	<p>उत्तर- स्टेशन रोड चमेली देवी के प्लाट सं0 एफ 01 से पूर्व की ओर जैन मन्दिर के सामने होकर प्लाट नं0 ई 71 बनवारी लाल मास्टर के मकान तक।</p> <p>पश्चिम- बट्टी प्रसाद झिरना वाले के प्लाट एफ 13 से स्टेशन रोड उत्तर की ओर चलते हुए गोपाल टाकिज के चौराहे को पार करते हुए एफ 01 चमेली देवी के मकान तक।</p> <p>दक्षिण - सतीश पंजाबी के मकान के पूर्वी-दक्षिणी कोने से छोटे पार्क के सामने होकर आनन्द भवन के कोने तक, आनन्द भवन के कोने से दक्षिण की ओर मुडकर गयाप्रसाद ठेकेदार के सामने डा0 महेश महस्वा वाले के मकान के दक्षिण बगल वाले रास्ते-रास्ते चलते हुए</p>

	<p>मदन मोहन गुप्ता खूटापट्टा के मकान के सामने होकर झिरना वालों के मकान बट्टी प्रसाद एफ13 स्टेशन रोड तक।</p> <p>पूर्वी- ई71 बनवारी लाल मास्टर के मकान से दक्षिण की ओर कप्तान कपूर चंद के सामने होकर आर्य समाज मन्दिर के सामने होकर सतीश पंजाबी के मकान तक।</p>
31.	<p>उत्तर- मंगती निठार वाले की दुकान से गौरव पथ पर चलते हुए अग्रसेन कालेज तक।</p> <p>पश्चिम- स्टेशन रोड से विश्वनाथ पेट्रोल पंप के सामने होकर मंगती निठार वाले की दुकान गौरव पथ तक।</p> <p>दक्षिण- निरंजन भारती की दुकान के कोने से जैन मन्दिर रोड पर पश्चिम की ओर चलते हुए स्टेशन रोड तक।</p> <p>पूर्व - अग्रसेन कालेज के सामने से वृद्धाश्रम के सामने होकर रमेश संघई के मकान से पश्चिम की ओर मुडते हुए रामौतार महु वाले के मकान के सामने होकर एएमपीएस स्कूल के दक्षिण तरफ वाले संकरे रास्ते से चलते हुए टेलीफोन एक्सचेंज के सामने होकर जिंदल हास्पिटल के सामने होकर निरंजन भारती की दुकान के कोने तक।</p>
32.	<p>उत्तर- एएमपीएस स्कूल के दक्षिण तरफ वाले संकरे रास्ते से होते हुए रामौतार महु वाले के मकान के सामने होकर अनिल बंसल के मकान से रमेश संघई के दक्षिण तरफ वाले रास्ते से पूर्व की ओर शिवकुमार शर्मा नगरपरिषद वाले के मकान के दक्षिण तरफ वाले रास्ते में होकर सुरेश गुर्जर सकरघटा वाले के मकान ढंड वाले रास्ते तक।</p> <p>पश्चिम- मूलचंद भारती के मकान चौराहे से पार्क को शामिल करते हुए जिंदल नर्सिंग होम के सामने होकर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने से यादराम कोली के मकान के सामने होकर एएमपीएस स्कूल तक।</p> <p>दक्षिण - कुलदीप जाट खेडी वाले के मकान से ढंड वाले रास्ते से पश्चिम की ओर चलते हुए छिंगा मास्टर खिजूरी वाले के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए किशन बगीची के उत्तर वाले रास्ते में चलकर नानकराम गुप्ता के मकान के सामने होकर जगदीश मूंडिया वाले के मकान के सामने होते हुए जुपीटर स्कूल के सामने होकर मूलचंद भारती के मकान एक्सचेंज चौराहे तक।</p> <p>पूर्व - सुरेश गुर्जर सकरघटा वाले के मकान ढंड वाले रास्ते से दक्षिण की ओर चलते हुए चावड के मंदिर के सामने होकर कुलदीप जाट खेडी वाले के मकान ढंड वाले रास्ते तक।</p>
33.	<p>उत्तर- कुलदीप जाट खेडी वाले के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए छिंगा खिजूरी वाले के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए किशन बगीची के उत्तर तरफ वाले रास्ते से नानक चंद गुप्ता के मकान के सामने होकर जगदीश मूंडिया वाले के मकान से पश्चिम की ओर मुडते हुए जुपीटर स्कूल के सामने होते हुए मूलचंद भारती के मकान चौराहे तक।</p> <p>पश्चिम- रामस्वरूप रामपुरा वाले की दुकान के कोने से दक्षिण की ओर आर्य समाज मंदिर तक।</p> <p>दक्षिण - आर्य समाज मंदिर से पूर्व की ओर सडक पर मुडते हुए शंकर आटा चक्की से पूर्व की ओर चलते हुए प्रभाकर देव आर्य के प्लाट से उत्तर की ओर मुडते हुए बीके शर्मा टेलीफोन वाले के मकान के दक्षिण तरफ वाले रास्ते से ढण्ड वाले रास्ते तक।</p> <p>पूर्व - बीके शर्मा टेलीफोन वाले के मकान ढण्ड वाले रास्ते से उत्तर की ओर चलते हुए कुलदीप</p>

	जाट खेडी वाले के मकान तक।
34.	<p>उत्तर - आर्य समाज मंदिर से शंकर आटा चक्की के सामने होकर प्रभाकर देव आर्य की प्लाट के उत्तर की ओर मुड़ते हुए बीके शर्मा टेलीफोन वाले के दक्षिण तरफ वाले रास्ते से ढण्ड वाले रास्ते तक।</p> <p>पश्चिम- जिन्दल मेडिकल स्टोर से हास्पिटल के सामने होते हुए उत्तर की ओर चलते हुए बलमगढिया के मकान आर्य समाज मंदिर के चौराहे तक।</p> <p>दक्षिण- दीनदयाल हलवाई के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए सतीश चिनायटा के मकान से दक्षिण तरफ वाले रास्ते से विष्णु हैड के दक्षिण तरफ होते हुए भागमल एसडीआई के मकान से दक्षिण की ओर मुड़कर डा0 मुकेश गुप्ता के मकान के सामने होकर हास्पिटल के दक्षिण तरफ से चलते हुए 60 फीट रोड जिंदल मेडीकल स्टोर तक।</p> <p>पूर्व - ढण्ड वाले रास्ते से दक्षिण की ओर चलते हुए दीनदयाल हलवाई के मकान तक।</p>
35.	<p>उत्तर - दीनदयाल हलवाई के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए सतीश चिनायटा वाले मे मकान से दक्षिण तरफ वाले रास्ते से विष्णु हैड के दक्षिण तरफ होते हुए भागमल एसडीआई के मकान से दक्षिण की ओर मुड़कर डा0 मुकेश गुप्ता के मकान के सामने होकर हास्पिटल के दक्षिण तरफ से चलते हुए 60 फीट रोड जिंदल मेडीकल स्टोर तक।</p> <p>पश्चिम- जिंदल मेडीकल स्टोर से दक्षिण की तरफ चलते हुए मनीराम पार्क बयाना रोड तक।</p> <p>दक्षिण- मनीराम पार्क बयाना रोड पर पूर्व की ओर चलते हुए ढण्ड के रास्ते तक।</p> <p>पूर्व- ढण्ड के रास्ते से उत्तर की ओर चलते हुए गणगौर वाले कुआ पर होते हुए दीनदयाल हलवाई के मकान तक।</p>
36.	<p>उत्तर - बीईईओ कार्यालय से पूर्व की ओर चलते हुए किंदूरी सिंह के मकान बयाना रोड तक।</p> <p>पश्चिम- दुब्बे पाडे की पुलिया से बलवंत सिंह के मकान के सामने होकर बीईईओ कार्यालय बयाना रोड तक।</p> <p>दक्षिण- हरिजन बस्ती की पुलिया से नाले-नाले चलते हुए चैबे पाडे की पुलिया को पार कर नाले-नाले दुब्बे पाडे की पुलिया तक।</p> <p>पूर्व- किंदूरी सिंह के मकान बयाना रोड से जाट की सराय की ओर चलते हुए कुम्हेर ठेकेदार के मकान के सामने होकर गोकुल कोली के मकान से राय वाले खेत के रास्ते चलते हुए हरिजन बस्ती की पुलिया तक।</p>
37.	<p>उत्तर - मानसिंह के मकान व दुकान से गोविंद बैनीवाल के मकान के सामने होकर गंदे नाले दुब्बे पाडे की पुलिया तक।</p> <p>पश्चिम- डा0 अरोडा की दुकान के कोने से दिलसुख टाल के सामने होकर शीतला चौराहे से लौकेश विजय की दुकान व मकान से मान सिंह जाट के मकान व दुकान तक।</p> <p>दक्षिण- जय कुमार जैन की दुकान व मकान से डैम्परोड पर डा0 अरोडा की दुकान के कोने तक।</p> <p>पूर्व- दुब्बे पाडे की पुलिया गन्दे नाले से हनुमान शर्मा मास्टर के मकान के सामने होकर नाले-नाले जय कुमार जैन की दुकान व मकान तक।</p>
38.	<p>उत्तर- दुब्बे पाडे की पुलिया से कोलियों की अथाई के सामने होकर धाकडों की अथाई तक।</p> <p>पश्चिम- मांगी लाल आर्य की दुकान के कोने कटरा बाजार से डैम्परोड पर होते हुए कोठारी की दुकान के सामने से जयकुमार जैन की दुकान से नाले-नाले चलते हुए दुब्बे पाडे की</p>

	<p>पुलिया तक।</p> <p>दक्षिण- कसाई पाडे के चौराहे से पश्चिम की तरफ मदीना मस्जिद के सामने होकर चलते हुए अग्रवाल धर्मशाला के सामने होकर मांगीलाल आर्य की दुकान के कोने कटरा बाजार तक।</p> <p>पूर्व- धाकड़ों की अथाई से हरि गुप्ता के मकान के सामने होकर पीलू वाली मस्जिद होते हुए हनुमान टाकिज के सामने होकर कसाई पाडे के चौराहे तक।</p>
39.	<p>उत्तर- हुकम कश्यप की दुकान के कोने से पूर्व की ओर चलते हुए मदीना मस्जिद के सामने होते हुए कसाई पाडे के चौराहे से जगमोहन पटवारी के मकान तक।</p> <p>पश्चिम- जगदीश मोदी के मकान से मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से अर्जुन देव की चक्की के सामने होकर मूलचन्द मावे वाले की दुकान तक।</p> <p>दक्षिण- भगवत लाल मास्टर के मकान से आर्य समाज के सामने होकर बन्ना पीर होते हुए टीकम हलवाई की दुकान से विवेकानन्द बाजार में चलते हुए बट्टी महाजन के मकान व दुकान से जगदीश मोदी वकील के मकान तक।</p> <p>पूर्व - जगमोहन पटवारी के मकान से हरण्याकश्यप के कुआ से मदनमोहन वकील के मकान के कोने से नीम के बाजार में होते हुए घाटी वाली मस्जिद के तिराहे से मस्जिद के सामने होकर हमाल पाडे से निकलकर भगवत लाल मास्टर के मकान के कोने तक।</p>
40.	<p>उत्तर- नगर परिषद सीमा से खेडलियान के पुरा की सडक पर पश्चिम की ओर चलते हुए शिवदत्त पाराशर के मकान से देवु गुर्जर के बगल से पाल पर चढते हुए पुलिस चौकी के सामने होते हुए हिंगा स्वामी के मंदिर के सामने होकर डेरा को सामिल करते हुए ब्राह्मणों की धर्मशाला के दक्षिण बगल वाले रास्ते से तालाब में उतरकर बनिया वाले कुए की सीढियां होते हुए नीलगर वाली मस्जिद तक।</p> <p>पश्चिम- नीलगर वाली मस्जिद से तालाब के अन्दर बनिया वाले कुआ की सीढियां होते हुए तालाब में होकर देवु गुर्जर के खेत से नले-नले चलते हुए सालिमपुरियान के पुरा, खोखलियान के पुरा को छोडते हुए नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>दक्षिण - नगर परिषद सीमा रेखा पर चलते हुए देवरैनिया का पुरा, परसादी का पुरा, बरैडियान का पुरा, फत्तु का पुरा, भूदर का पुरा, सिंघनिया का पुरा, भोपरियान का पुरा, रूग्गापुरियान का पुरा एवं इसके मध्य में आने वाले समस्त पुराओं को शामिल करते हुए स्कूल के पास रूदियान का पुरा के बीच का समस्त भाग।</p> <p>पूर्व - खेडलियान के पुरा के स्कूल से नगर परिषद सीमा तक।</p>
41.	<p>उत्तर - जगदीश वकील के मकान के कोने से नीम के बाजार में होकर पूर्व की ओर चलते हुए टुण्डा पतंग वाले के मकान से हिंगा स्वामी मंदिर के सामने होते हुए यूसुफ बैण्ड वाले के मकान के सामने होकर नक्कस की देवी के मंदिर के सामने होकर तालाब की पाल पर चलते हुए सपाट की ओर धन्ना धाकड़ के मकान को छोडते हुए पीछे वाले रास्ते से पश्चिम की ओर चलते हुए तत्काली हनुमान मंदिर तक।</p> <p>पश्चिम - पाल पर चढते हुए पुलिस चौकी के सामने होते हुए छीपियों के कुए के बगल वाले रास्ते से होते हुए ब्राह्मणों की धर्मशाला से तालाब में अन्दर होते हुए सीधे बनिया वाले कुआ पर होकर नीलगर वाली मस्जिद जगदीश वकील के मकान तक।</p>

	<p>दक्षिण- खेडलियान के पुरा को जाने वाली सडक शिवदत्त पारासर के मकान से रोड पर जलसेन की तरफ चलते हुए देवु गुर्जर के खेत से बारह खम्भा की ओर चलते हुए तालाब में होकर पाल तक।</p> <p>पूर्व - तत्काली हनुमान मंदिर से नले-नले चलते हुए कोटापुरियान का पुरा को शामिल करते हुए देहरा से शिवदत्त पाराशर के मकान के पीछे से खेडलियान के पुरा को जाने वाली सडक तक।</p>
42.	<p>उत्तर - खरैटा की पुलिया से नसिया नाले चलते हुए कोलियों की कुईया से मालियों की अथाई से होकर हिंजडों की मस्जिद शाहगंज बाजार तक।</p> <p>पश्चिम - हिंजडों की मस्जिद से छोटे बाजार में चलते हुए जौहरी सूरौठिया के मकान से पश्चिम की ओर चलकर रहीमा राईन के मकान के सामने से हिंजडों के मकान के सामने होकर कलारों के कुआ से होते हुए विद्यालय नं0 1 के सामने से नक्कस की देवी मंदिर के सामने होकर तालाब की पाल तक।</p> <p>दक्षिण - तालाब की पाल से पाल-पाल चलते हुए धन्ना धाकड के पीछे वाले रास्ते से तत्काली हनुमान तक।</p> <p>पूर्व - तत्काली हनुमान से पश्चिम की ओर रास्ते-रास्ते चलते हुए नक्कस की देवी वाली सडक पर चढते हुए प्रहलाद कुंड स्कूल के सामने होकर मुकट की दुकान से पीएचईडी पम्प हाउस के सामने होते हुए खरैटा की पुलिया तक।</p>
43.	<p>उत्तर - टुण्डा पतंग वाले से पूर्व की ओर चलते हुए पोस्ट आफिस के सामने होकर रहीमा राईन के मकान तक।</p> <p>पश्चिम - टुण्डा पतंग वाले से हिंगा स्वामी के मंदिर तक।</p> <p>दक्षिण - हाजी शकूर मुतबल्ली के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए हिंगा स्वामी मंदिर तक।</p> <p>पूर्व - हाजी शकूर मुतबल्ली के मकान से उत्तर की ओर हिंजडों के मकान के सामने होकर रहीमा राईन के मकान तक।</p>
44.	<p>उत्तर - कप्तान गुर्जर के मकान से पुरानी कचहरी के सामने होकर रामपुरा वालों की हवेली के सामने होकर अताउल हकनूरी की हवेली से महफूज पटेल से छोटी मस्जिद होते हुए तेजकिशन सारस्वत के मकान से राजेन्द्र मास्टर के मकान से महेश के मकान होते हुए गीता टाकीज वालों के मकान के सामने होकर बाबूलाल पाराशर के मकान तक।</p> <p>पश्चिम - बाबूलाल पाराशर के मकान से कोडिया वाली मस्जिद से दक्षिण की ओर चलते हुए नरेन्द्र जैतवाल के मकान के सामने से बरपाडा चैक हनुमान जी तक, हनुमान जी से ईश्वर खरैटा वाले के मकान से स्कूल नं. 02 के सामने होकर हरदेव जी मन्दिर के चौराहे तक।</p> <p>दक्षिण- हरदेव जी मंदिर चौराहे से गोपालगंज में होते हुए जामा मस्जिद के सामने से पूर्व की ओर चलते हुए जौहरी सूरौठिया की दुकान तक</p> <p>पूर्व - जौहरी सूरौठिया के मकान से छोटे बाजार में होते हुए कप्तान गुर्जर के मकान तक।</p>
45.	<p>उत्तर- हनुमान टाकिज के सामने दयानंद के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए निरंजन रमेश महाजन के मकान के पश्चिम तरफ वाले रास्ते में चलते हुए मोहन महस्वा वाले के मकान से खंदी की टेक पर चढते हुए गणेश जी के मन्दिर के सामने होते हुए गोपीनाथ</p>

	<p>शर्मा मास्टर के मकान तक।</p> <p>पश्चिम- हनुमान टाकिज के सामने दयानंद के मकान से दक्षिण की ओर कसाई पाडे चैराहे से पूर्व की ओर चलते हुए किरोडी कन्नी के मकान के सामने होते हुए हिरणाकश्यप के कुआ से रामेश्वर छन्नी के मकान के सामने होते हुए घाटी वाली मस्जिद के तिराहे तक।</p> <p>दक्षिण- घाटी वाली मस्जिद के तिराहे से नीम के बाजार में होते हुए पूर्व की ओर चलते हुए नम्बर दो स्कूल के सामने होते हुए ईश्वर लाल खरैटा वाले के मकान के सामने होकर पुराने खादी भण्डार के सामने से हनुमान जी के मन्दिर तक।</p> <p>पूर्व - गोपीनाथ शर्मा मास्टर के मकान से नरेन्द्र के मकान के सामने वरपाडा चौक में होते हुए वरपाडे के हनुमान जी के मन्दिर की ओर चलते हुए हनुमान जी के मन्दिर तक।</p>
46.	<p>उत्तर- धाकडों की अथाई के सामने से तन पाडे की दहलीज में होते हुए कुन्दन लाल की हवेली के सामने से दक्षिण की ओर मुडते हुए नंदलाल के मकान से पूर्व की ओर टेक पर चढते हुए महेश के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए कल्याण पोस्ट मैन के मकान के सामने से खंदी की टेक पर नीचे उतरते हुए मोहन महस्वा वाले के मकान तक।</p> <p>पश्चिम- पीलू वाली मस्जिद से धाकडों की अथाई पर होकर कोलियों की अथाई के सामने से होते हुए घीस्या पंडित की चक्की तक।</p> <p>दक्षिण- निरंजन रमेश महाजन के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए हनुमान टाकिज के सामने दयानंद के मकान से उत्तर की ओर मुडते हुए पीलू वाली मस्जिद तक।</p> <p>पूर्व - मोहन महस्वा वाले के मकान खंदी की टेक से दक्षिण की ओर चलते हुए निरंजन रमेश महाजन के मकान तक।</p>
47.	<p>उत्तर- किशोरी महाजन की दुकान चूडिया दरवाजे से चौबे पाडे की पुलिया तक।</p> <p>पश्चिम- चौबे पाडे की पुलिया से गंदे नाले के सहारे दुब्बे पाडे की पुलिया तक।</p> <p>दक्षिण- दुब्बे पाडे की पुलिया से घीस्या मिश्र की चक्की से कोलियों की अथाई के सामने होकर धाकडों की अथाई से तन पाडे की दहलीज में होकर जगन पटवारी के मकान से चलते हुए कुन्दन लाल की हवेली से दक्षिण की ओर मुडते हुए केदार दत्तात्रेय स्टाम्प विक्रेता के मकान के सामने होते हुए नंदलाल के मकान से काना हनुमान की टेक पर चढते हुए राजेन्द्र मास्टर के मकान तक।</p> <p>पूर्व- राजेन्द्र मास्टर के मकान से तेजकिशन सारस्वत के मकान से होते हुए तेलियों के नले में उतरते हुए कुम्हारों की टेक से चूडिया दरवाजे किशारी लाल महाजन के मकान तक।</p>
48.	<p>उत्तर - कोलियों की कुईया से फर्राशियों के चौक से होकर सिरमोहर गुर्जर की हवेली के सामने होकर भौरया गुर्जर के मकान से मटिया महल के पीछे होते हुए कुम्हारों की अथाई के सामने होकर टेक के नीचे धनीराम कुम्हार के मकान तक।</p> <p>पश्चिम- कुम्हारों की टेक धनीराम कुम्हार के मकान से तेलियों के नाले में चलते हुए तेजकिशन सारस्वत के मकान से होते हुए छोटी मस्जिद के सामने होकर महफूज पटेल के मकान से अताउल हक नूरी के मकान से रामपुरा वालों की हवेली तक।</p> <p>दक्षिण- रामपुरा वालों की हवेली से पुरानी कचहरी के सामने होकर कप्तान सिंह गुर्जर के मकान तक।</p>

	<p>पूर्व - कप्तान सिंह गुर्जर के मकान से दक्षिण की ओर चलकर हिंजडों वाली मस्जिद के उत्तर तरफ वाले रास्ते से मालियों की अथाई से होकर सीधे कोलियों की कुईया तक।</p>
49.	<p>उत्तर - मूलचंद मावे वाले की बगीची से शेरखार तिवारे की ओर नाले-नाले चलते हुए शेरखार तिवारे तक।</p> <p>पश्चिम- शेरखार तिवारे से हरिराम का पुरा, निसूरियान का पुरा, मनेमा का पुरा, खेडी का पुरा, खेडलियान का पुरा, धाकडों की कुईया की आबादी एवं इस सीमा के अन्तर्गत आने वाली समस्त आबादी को शामिल करते हुए नक्कस की देवी सडक तक।</p> <p>दक्षिण - नक्कश की देवी सडक से सडक-सडक चलते हुए मूलचंद मावे वाले की बगीची तक।</p>
50.	<p>उत्तर - मुकट मास्टर की दुकान खरैटा रोड पर चलते हुए गोपाल गुर्जर की दुकान से बाघा के हनुमान के सामने आबादी को छोडते हुए पीपली वाले पुरा को शामिल करते हुए नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>पश्चिम - नक्कस की देवी मूलचंद मावे वाले की बगीची रोड से प्रहलाद कुण्ड स्कूल के सामने होते हुए मुकट की दुकान खरैटा रोड तक।</p> <p>दक्षिण - शेरखार के तिवारे से शेरखार के नाले चलते हुए पश्चिम की ओर निसूरियान का पुरा, भण्डारी का पुरा, गुलालियान का पुरा एवं इसके अंतर्गत आने वाली समस्त आबादी को शामिल करते हुए नक्कस की देवी वाली सडक मूलचंद मावे वाले की बगीची तक।</p> <p>पूर्व - नगर परिषद सीमा से शेरखार के तिवारे तक।</p>
51.	<p>उत्तर - नगर परिषद सीमा से मेंहदीवाला, खिजूरवाला, वैद्यवाला एवं इस सीमा से आने वाली समस्त आबादी को शामिल करते हुए बाघा के हनुमान तक।</p> <p>पश्चिम- पीएचईडी वाटरवर्क्स के पम्प हाउस से मुकंदपुरा रोड पर चलते हुए नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>दक्षिण - बाघा के हनुमान के सामने की आबादी को शामिल करते हुए पीपली के पुरा को छोडते हुए खरैटा रोड गोपाल गुर्जर की दुकान तक।</p> <p>पूर्व - गोपाल गुर्जर की दुकान खरैटा रोड से शहर की ओर रोड-रोड चलते हुए पीएचईडी वाटरवर्क्स पम्प हाउस तक।</p>
52.	<p>उत्तर- रमेश नाई के मकान से दक्षिण की तरफ वाले रास्ते में चलते हुए लक्षमण पुत्र श्री मांगी के मकान के दक्षिण की तरफ संकरी गली में होकर दिनेश ठेकेदार के मकान के सामने होते हुए पातरिया की दुकान के सामने से पूर्व की ओर मुडकर हरिसिंह बारौलिया के मकान के सामने होते हुए पूर्व की ओर पठान नीचे के चौक में होते हुए रामपाल के मकान के सामने होकर उत्तर की ओर मुकंदी के मकान के सामने होकर पूर्व की तरफ रास्ते से मुडते हुए रुग्गी के मकान के सामने चलते हुए नसिया नाले-नाले चलते हुए खरैटा की पुलिया तक।</p> <p>पश्चिम- रमेश चंद के मकान से कुम्हारों की टेक को चंडते हुए हरिबाबू शर्मा के मकान के आगे होते हुए भौरया गुर्जर के मकान के पश्चिमी-उत्तरी कोने तक।</p> <p>दक्षिण- भौरया गुर्जर के मकान के उत्तर-पश्चिमी कोने से सिरमौर गुर्जर के मकान के सामने से फर्राश पाडा के चौक से निकलते हुए कोलियों की बगीची, कोलियों की बगीची से नसिया के सामने होते हुए वाटर वर्क्स पम्प हाउस खरैटा रोड तक।</p>

	पूर्व - वाटरवर्क्स पम्प हाउस से खरैटा रोड गंदे नाले की पुलिया खरैटा रोड तक।
53.	<p>उत्तर - चौबे पाडे की पुलिया नाले-नाले चलते हुए हरीजन बस्ती की पुलिया होते हुए जाटव बस्ती की पुलिया तक।</p> <p>पश्चिम- चौबे पाडे की पुलिया से पूर्व की ओर चलते हुए किशोरी महाजन की दुकान चूडिया दरवाजे से कुम्हारों की टेक की ओर चलते हुए रमेश नाई के मकान तक।</p> <p>दक्षिण - रमेश नाई के मकान के दक्षिण तरफ वाले रास्ते से पूर्व की ओर चलते हुए लक्ष्मण पुत्र श्री मांगी के मकान के दक्षिण की तरफ संकरी गली से होकर दिनेश ठेकेदार के मकान के सामने होकर पातरिया की दुकान के सामने पूर्व की ओर मुड़कर हरिसिंह बारौलिया के मकान के सामने होते हुए पूर्व की ओर पठान नीचे के चौक से होते हुए रामपाल के मकान के सामने होकर उत्तर की ओर मुकन्दी के मकान के सामने होकर पूर्व की तरफ वाले रास्ते में मुड़ते हुए रुग्गी के मकान के सामने चलते हुए नसिया नाले तक।</p> <p>पूर्व - नसिया नाले से चलते हुए दिनेश पुत्र श्री रामस्वरूप के मकान के सामने होकर जाटवों की धर्मशाला जाटव बस्ती की पुलिया तक।</p>
54.	<p>उत्तर- अम्बेडकर पार्क से रा0मा0वि0 की ओर चलकर महावीर जैन मंदिर के पीछे होकर चौक से होते हुए खारे कुआ से चलते हुए खरैटा रोड पर ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल तक।</p> <p>पश्चिम- हरिजन बस्ती की पुलिया से हरिमोहन नगर परिषद वाले की दुकान के सामने होकर अम्बेडकर पार्क तक।</p> <p>दक्षिण- खरैटा की पुलिया से नसिया नाले चलते हुए दिनेश पुत्र श्री रामस्वरूप ठेकेदार के मकान के सामने होकर जाटव बस्ती पुलिया से नाले-नाले चलते हुए हरिजन बस्ती की पुलिया तक।</p> <p>पूर्व - ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल से खरैटा की पुलिया तक।</p>
55.	<p>उत्तर- खरैटा रोड बयाना रोड से पूर्व की ओर श्मशान घाट के सामने होकर अमरसिंह की दुकान व मकान तक।</p> <p>पश्चिम- अम्बेडकर पार्क से बयाना रोड की ओर चलते हुए जलदाय विभाग की टंकी के सामने होकर बयाना रोड नाका नं. 05 पर होते हुए खरैटा रोड तक।</p> <p>दक्षिण- ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल से खारे कुआ पर होते हुए महावीर मंदिर के पीछे होकर अंबेडकर पार्क तक।</p> <p>पूर्व - अमरसिंह की दुकान व मकान से खरैटा रोड पर चलते हुए ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल खरैटा रोड तक।</p>
56.	<p>उत्तर - किंदूरी सिंह के मकान बयाना रोड पर चलते हुए चुंन्नी-भोला की टाल के सामने होकर अम्बेडकर सर्किल तक।</p> <p>पश्चिम- गोकुल कोली के मकान के सामने होकर कुम्हेर सिंह ठेकेदार के मकान के सामने होकर जाट की सराय होते हुए किंदूरी सिंह के मकान बयाना रोड तक।</p> <p>दक्षिण- हरीजन बस्ती की पुलिया से राय वाले खेत की तरफ चलते हुए गोकुल कोली के मकान तक।</p> <p>पूर्व - अम्बेडकर सर्किल से दक्षिण की ओर चलते हुए हरिजन बस्ती की पुलिया तक।</p>
57.	उत्तर- रतन जाटव के कुआ के पूर्व की ओर चलते हुए ब्राह्मणों के पुरा को शामिल करते हुए

	<p>बीएड कालेज के सामने बयाना रोड तक।</p> <p>पश्चिम- ढण्ड वाले रास्ते से बयाना रोड उत्तर की ओर चलते हुए गणगौर कुआ पर होकर रतन जाटव के कुआ तक।</p> <p>दक्षिण- अम्बेडकर सर्किल से पश्चिम की ओर चलते हुए ढण्ड वाले रास्ते तक।</p> <p>पूर्व - बीएड कालेज के सामने से बयाना रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए अम्बेडकर सर्किल तक।</p>
58.	<p>उत्तर- बयाना रोड नगर परिषद सीमा से पूर्व की ओर चलते हुए तिघरिया के गुर्जरों के पुरा को शामिल करते हुए मुकंदपुरा के रोड पर नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>पश्चिम- बयाना रोड खरैटा रोड से नेहरू बीएड कालेज के सामने होकर नगर परिषद सीमा तक।</p> <p>दक्षिण- पम्प हाउस से खरैटा रोड पर गंदे नाले की पुलिया पार करते हुए बयाना रोड तक।</p> <p>पूर्व - मुकंदपुरा रोड नगर परिषद सीमा से रोड पर चलते हुए पम्प हाउस जलदाय विभाग तक।</p>
59.	<p>उत्तर- बनकी वाली गुमटी से नगर परिषद सीमा पर चलते हुए मोहनलाल की बगीची से बयाना रोड तक।</p> <p>पश्चिम- रतन जाटव के कुआ ढण्ड वाले रास्ते से चांवड के मंदिर के सामने होते हुए सुरेश गुर्जर के मकान के सामने से लाईन की ओर चलते हुए पीली कोठी, मन्नी के पुरा को शामिल करते हुए बृषभान के मकान के सामने से सडक पर चढ़कर एल.सी. नं. 202 तक।</p> <p>दक्षिण- बीएड कालेज के सामने ब्राहमणों के पुरा को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर बनकी रोड को पार करते हुए रघुवीर, पाच्या माली के पुरा को शामिल करते हुए रतन जाटव के कुआ ढण्ड वाले रास्ते तक।</p> <p>पूर्व - मोहन लाल की बगीची बयाना रोड से दक्षिण की ओर चलते हुए बयाना रोड ब्राहमणों के पुरा तक।</p>
60.	<p>उत्तर - महवा रोड़ धावन धौलेटा रोड तिराहे से नगर परिषद सीमा पर पूर्व की ओर चलते हुए एल.सी. नं. 202 तक।</p> <p>पश्चिम - महवा रोड नाका नं. 01 से झण्डू के पुरा के सामने होते हुए रेल्वे लाईन पार करते हुए चौपड की ओर चलते हुए मंगती निठार वाले की दुकान तक।</p> <p>दक्षिण- मंगती निठार वाले की दुकान से गौरव पथ पर पूर्व की ओर चलते हुए अग्रसेन कालेज के सामने होकर दक्षिण की ओर चलते हुए वृद्धाश्रम के सामने होकर रमेश संघई के मकान से दक्षिण की तरफ वाले रास्ते से मुडते हुए शिवकुमार नगर परिषद वाले के मकान से सुरेश गुर्जर सकरघटा वाले के मकान ढंड के रास्ते तक।</p> <p>पूर्व - ढंड के रास्ते सुरेश सकरघटा वाले के मकान से रेल्वे लाईन की ओर चलते हुए पीली कोठी को छोड़ते हुए बृषभान शर्मा के मकान के सामने से बाजना की ओर सडक पर चलते हुए एल.सी. 202 तक।</p>

आयुक्त
नगर परिषद हिण्डौन